



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

दिसंबर 12, 2025

संख्या 50

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	दिसंबर 06	नवंबर 28	दिसंबर 05	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3527114	3827333	3852285	24952	325171
1.1 संचलन में नोट	3527096	3827317	3852270	24953	325175
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	19	16	15	-1	-4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1033128	778275	743882	-34393	-289246
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8510	6733	6955	222	-1556
2.6 अन्य बैंक	55752	44645	41197	-3448	-14555
2.7 अन्य	293899	586643	549664	-36979	255765
3 अन्य देयताएं	1941476	2670951	2741647	70696	800171
कुल देयताएं / आस्तियां	6860023	7914722	7935773	21051	1075750
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4827263	5011479	5041075	29596	213811
2 सोना	566898	946227	962880	16653	395982
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1272179	1732147	1733202	1055	461023
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	11131	0	0	0	-11131
4.2 राज्य सरकारें	34432	18966	40349	21383	5917
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9846	2144	2101	-43	-7745
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	118239	179427	131895	-47533	13655
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	17970	22267	22207	-60	4237

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	दिसंबर 05, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6185485	687260	47910	1033	473345	18934	639322	32404
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5012069	556880	30023	-151	161235	-10677	221634	-8743
1.2 स्वर्ण	962880	106984	16653	1188	294718	28807	395982	40048
1.3 विशेष आहरण अधिकार	168496	18721	1886	93	13207	552	15783	690
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42041	4675	-651	-97	4186	252	5923	409

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

दिसंबर 12, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 739862 करोड़	2025													
	नवंबर 29	नवंबर 30	दिसंबर 01	दिसंबर 02	दिसंबर 03	दिसंबर 04	दिसंबर 05	दिसंबर 06	दिसंबर 07	दिसंबर 08	दिसंबर 09	दिसंबर 10	दिसंबर 11	दिसंबर 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	832172	832086	744501	732372	728970	716444	749452							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	112.5	112.5	100.6	99.0	98.5	96.8	101.3							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	नवंबर 28, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	322855	-28081	-20749	13441	24709	49133
1.2 बैंकों से उधार	79670	-1864	-44832	-32306	-62704	-57927
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	31145	4148	-47734	1230	-46809	6428
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24260040	166497	1542239	1679439	2130970	2242574
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	7.5	7.4	10.7	10.2
2.1.1 मांग	3013411	21744	132936	315362	242625	436622
2.1.2 मीयादी	21246629	144753	1409304	1364076	1888345	1805952
2.2 उधारियां	878189	43205	173081	-37059	108759	-72834
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1055445	25036	84353	-6186	68930	33664
3 रिज़र्व बैंक से उधार	2144	-14	-201423	-309322	-69986	-19149
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	861145	-7056	93766	-103144	88203	-253537
4.1 उपलब्ध नकदी	82870	-3252	1434	996	2872	-7997
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	778275	-3805	92332	-104139	85331	-245540
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	265101	-13852	-2656	49299	3616	69429
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	36427	9844	6736	10589	-987	17336
5.3 बैंकों को अग्रिम	32470	235	-9727	-7033	-13285	-6171
5.4 अन्य आस्तियां	72024	8747	-54338	4671	-34204	10938
6 निवेश	6886472	51736	432357	188544	507992	347557
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	7.1	2.8	8.4	5.3
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6886017	51736	432741	188719	508267	347666
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	455	0	-384	-175	-275	-109
7 बैंक ऋण	19527313	156364	1076792	1283341	1683500	2018357
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	6.6	7.0	10.6	11.5
7 क.1 खाद्य ऋण	79801	610	28173	43270	9561	28547
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19447512	155754	1048619	1240071	1673939	1989810
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19155407	150522	1064312	1245556	1647660	1956792
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	88732	1525	7884	13769	19691	20381
7 ख.3 भुनाए गए	248003	3925	7895	26944	18339	42750
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12927	26	-1226	-2195	-1311	-2258
7 ख.5 भुनाए गए	22244	366	-2074	-733	-879	693

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	दिसंबर 06	नवंबर 07	नवंबर 14	नवंबर 21	नवंबर 28	दिसंबर 05
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.25	3.25	3.25	3.25	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	3.60	..	3.55	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	80.40	..	80.49	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	74.49	..	76.41	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.37	..	28.39	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	9.04	..	11.23	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.00
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.50
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.50
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95	7.80/7.95
साविधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिता औसत)	6.48	5.40	5.37	5.41	5.45	5.37
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.43	5.45	5.43	5.38	5.36	5.35
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.54	5.59	5.57	5.56	5.52	5.53
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.53	5.59	5.57	5.56	5.53	5.55
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.76	6.51	6.53	6.56	6.55	6.55
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.66	88.71	88.74	88.64	89.46	89.92
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.53	102.30	103.32	102.32	103.63	104.82
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.99	1.97	1.81	1.86	2.15	2.92
3-माह	1.98	2.01	1.94	1.94	2.06	2.65
6-माह	2.04	2.12	2.10	2.11	2.21	2.56

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	नवंबर 28	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	29136375	190504	0.7	1577530	6.3	1849786	6.8	2352025	9.7	2618985	9.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3771710	20120	0.5	33942	1.0	140959	3.9	194064	6.0	327493	9.5
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3158227	21053	0.7	131748	5.1	318204	11.2	242885	9.8	439590	16.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	22088545	145032	0.7	1403384	7.4	1386036	6.7	1887668	10.3	1837000	9.1
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	117894	4298	3.8	8456	8.9	4587	4.0	27408	36.3	14901	14.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8849635	62223	0.7	483066	6.4	338810	4.0	582637	7.8	762998	9.4
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1644157	10982		49133		136052		72658		401812	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7205478	51240	0.7	433933	6.8	202758	2.9	509978	8.1	361186	5.3
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20336288	158905	0.8	1088450	6.3	1268160	6.7	1721658	10.4	2045007	11.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	11701	1471		-3943		-26544		5232		1238	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20324587	157434	0.8	1092393	6.4	1294704	6.8	1716425	10.4	2043769	11.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6544991	-10013	-0.2	204053	3.7	396463	6.4	526998	10.0	773434	13.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	39231	0	0	1988	5.9	2599	7.1	3155	9.8	3812	10.8
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	6477524	6633770	20611	0.3	200026	3.7	156246	2.4	482423	9.3	966266	17.0
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2147427	2654752	48767	1.9	111312	6.2	507325	23.6	239583	14.4	753305	39.6

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	दिसंबर 05	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4798037	-16381	-0.3	127528	2.8	-31206	-0.6	358254	8.1	39063	0.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3891899	25027	0.6	51054	1.5	167451	4.5	192118	5.7	329384	9.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	792033	-37619	-4.5	71942	7.0	-199455	-20.1	142088	14.9	-305358	-27.8
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114105	-3789	-3.2	4532	4.8	798	0.7	24048	32.1	15036	15.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1707135	62977		124648		199029		195111		389274	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1666828	41594		96816		191368		185262		383356	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-227527	-55042		-12944		-108512		-81547		-168436	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-237620	-53434		-8615		-80359		-86404		-168452	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6004152	46209	0.8	152558	2.9	453205	8.2	480606	9.8	610512	11.3
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	39629			1988	5.9	2997	8.2	3155	9.8	4209	11.9
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2147427	2725352	70600	2.7	138721	7.7	577925	26.9	239070	14.1	796496	41.3

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुस्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिसंबर 01, 2025	-	-	-	56935	808	212277	-522	-	-	-268926
दिसंबर 02, 2025	-	-	-	50017	780	173009	-1359	-	-	-223605
दिसंबर 03, 2025	-	-	-	-	806	158529	-	-	-	-157723
दिसंबर 04, 2025	-	-	-	72377	810	146034	-	-	-	-217601
दिसंबर 05, 2025	-	-	-	100024	2101	139697	-270	-	-	-237890
दिसंबर 06, 2025	-	-	-	-	523	117007	-	-	-	-116484
दिसंबर 07, 2025	-	-	-	-	332	120448	-	-	-	-120116

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	194.2	196.8	197.0	197.3	0.2	2.8	0.3
1.1 ग्रामीण	196.7	199.5	198.8	199.0	0.1	2.6	-0.3
1.2 शहरी	191.4	193.7	194.9	195.4	0.3	2.9	0.9
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.3	144.5	147.3	147.7	0.3	3.3	2.2
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.7	156.7	154.9	154.8	-0.1	0	-1.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.5	200.6	189.0	188.2	-0.4	1.5	-6.2
3.2 ईंधन और बिजली	147.2	148.8	143.4	145.0	1.1	-4.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.9	142.9	145.2	145.1	-0.1	0.3	1.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
नवंबर 14, 2025	534617	54949	5.50 - 6.63
नवंबर 28, 2025	570508	77875	5.50 - 6.87

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
नवंबर 15, 2025	501658	66526	5.86 - 9.71
नवंबर 30, 2025	501649	69178	5.79 - 11.49

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	दिसंबर 06, 2024	नवंबर 28, 2025	दिसंबर 05, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	15780	30785	26949
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4587	9265	9156
3 त्रिपक्षीय रेपो	719747	915718	684359
4 बाजार रेपो	512219	837027	745395
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	5835	14008	14748

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

दिसंबर 05, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	4942	12915	104434	217534
182-दिवसीय	45240	37346	13944	186744
364-दिवसीय	75373	81560	46058	361858
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (दिसंबर 05, 2025 तक)	2024-25 (दिसंबर 06, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (दिसंबर 05, 2025 तक)	2024-25 (दिसंबर 06, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1028000	993697	1400697	723120	644271	1039275
2. राज्य सरकारें	653354	551322	1073310	436707	371876	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।